

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ४०६] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर ५, १९६६/अग्रहायण १४, १८८८

No. 406] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 5, 1966/AGRAHAYANA 14, 1888

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

*Bombay, the 5th December 1966*

**S.O. 3671.**—In exercise of the powers conferred on me by Clause 3 of the Cotton Control Order, 1953, I hereby direct that the following further amendment shall be made in the Textile Commissioner's Notification No. S.O. 2094, dated the 6th July, 1966, namely:—

In Schedule A to the said Notification, for the entries under Column 4, the following entries shall be substituted, namely:—

| 4             |
|---------------|
| 328<br>(1166) |
| 301<br>(1070) |
| 342<br>(1216) |
| 389<br>(1383) |
| 355<br>(1262) |
| 339<br>(1205) |
| 368<br>(1309) |
| (1669)        |

---

4

---

318  
(1131)353  
(1255)297  
(1056)318  
(1131)259  
( 921)267  
( 949)261  
( 928)365  
(1298)**384**  
(1366)354  
(1259)354  
(1259)312  
(1109)356  
(1266)382  
(1358)468  
(1664)408  
(1451)383  
(1362)

(Sd.) R. DORAISWAMY,  
Textile Commissioner,  
[No. F. 11(1)-Tex.(A)/66.]

---

T. S. KUNCHITHAPATHAM, Dy. Secy.